

10 FINANCIAL EXPRESS

ADDENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT INVITATION FOR PARTICIPATING IN THE ELECTRONIC AUCTION SALE PROCESS UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 STERLING SEZ AND INFRASTRUCTURE LIMITED (IN LIQUIDATION) EXTENSION OF LAST DATE FOR SUBMISSION OF EXPRESSION OF INTEREST AND REVISION OF TERMS OF E-AUCTION

In continuation to the Public Notices for E-Auction of Sterling SEZ and Infrastructure Limited ("SSIL") as a whole, on a Going Concern Basis, published on 10.06.2022 and 27.06.2022 in this newspaper, it is hereby informed that the last date for submission of Expression of Interest (EOI) has been further extended to 08.08.2022. The other timelines in terms of the Process Document also stands extended/ revised accordingly. The revised terms of auction are as per table below:

Sr. No.	Asset	Indicative description	Reserve Price (INR)	EMD Amount (INR)	Incremental Value (INR)
1	SSIL as a whole with the legal entity and financial assets	SSIL assets as a whole including its legal entity, brand name and its financial assets.	487,80,00,000	10,00,00,000 (2,50,00,000 along with the EOI and 7,50,00,000 one day before E-Auction)	2,00,00,000

In this regard, please refer to the Process Document, Version 2.2 dated 28.07.2022 for complete details, uploaded on the website <https://sterlingsez.com/> and <https://resolvegroup.co.in/>.

Vishal Ghisulal Jain
Liquidator of Sterling SEZ and Infrastructure Limited
IBBI Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00419/2017-18/10742
AFA Valid upto: 04th Jan 2023

IBBI Registered Email: vishal@caivishal.in
IBBI Registered Address: D-1902, Palm Beach Residency, Amey CHS Ltd., Plot No. 24-29, Sector-4, Nerul West, Navi Mumbai, Maharashtra, 400706
(No correspondence to this address)

Insolvency Professional Entity: Resolve-IPE Private Limited
IBBI Registration No: IBBI/IPE/0120

Process Specific Email: liquidation.sterlingsez@resolvegroup.co.in
Communication Address: 1003, 10th Floor, Satra Plaza, Sector 19D, Palm Beach Road, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, India.

Date: 28/07/2022
Place: Navi-Mumbai

STELLAR CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899HR1994PLC076773

Registered office: 402, 4th Floor Solitaire Plaza, M.G. Road, Gurgaon, Haryana-122002
Website: www.stellarcapital.in E mail ID: stellarcapital@yahoo.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON TUESDAY, 16TH AUGUST, 2022 AT 05:00 P.M

Notice is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company will be held on **Tuesday, 16th August, 2022 at 05:00 P.M** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 ('the MCA Circulars') and circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Businesses as set out in the Notice have been sent to the members on 26th July 2022 in electronic mode.

All the members are informed that:

- The Special Business as set out in the Notice of EGM may be transacted through voting by electronics means.
The remote E-voting shall commence on **13th August, 2022 (09:00 am IST) and ends on 15th August, 2022 (5:00 pm IST)**.
- Cut-off date for voting is **09th August, 2022**
- Any person, who acquire shares and become member of Company after dispatch of the Notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 09th August, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- Members may note that:
 - the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for E-voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - the facility for voting by show of hands or by registered mail id shall be made available during the EGM; and
 - the member may participate through VC/OAVM in the Extra-Ordinary General Meeting even after exercising his right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again during the EGM; and
 - a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting by show of hands or by registered mail id during the EGM;
- In compliance with the circulars, electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and share transfer agent. Notice is also available on the Company's website www.stellarcapital.in and also on the CDSL's website www.evotingindia.com.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact - Mr. Rakesh Dalvi, Central Depository Services (India) Limited 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, E-mail id helpdesk.evoting@cdslindia.com, with Contact No. 022-23058738 or Mr. Rajeev Tyagi, Compliance officer of the Company at stellarcapital@yahoo.in or Contact at 8587000091

For Stellar Capital Services Limited

Sd/-

Pranay Anuja
Managing Director

Place: Gurgaon
Date: 27.07.2022

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase -I
New Delhi- 110020

CIN: L74899DL1994PLC059950

Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461

Email id: info@pushpsons.com

Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is scheduled to be held on Saturday, August 13, 2022 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the un-audited financial results (Standalone) of the Company for the quarter ended June 30, 2022.

The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.pushpsons.com> also on the website of the stock exchange at <http://www.bseindia.com>.

For Pushpsons Industries Limited

Sd/-

Pankaj Jain

Director

DIN: 00001923

Place: New Delhi

Date: July 27, 2022



SUPER SALES INDIA LIMITED

Regd. Office: 34-A, Kamaraj Road, Coimbatore - 641018

CIN : L17111TZ1981PLC001109

Email : ssil@vaamaa.com Web: www.supersales.co.in

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 Months Ended		Year Ended
		30.06.2022 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	12,756.75	7,430.56	42,686.67
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	1,454.04	895.48	6,370.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	1,454.04	895.48	6,573.24
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	1,043.67	637.92	4,816.17
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(293.13)	69.41	10,555.02
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹10 each)	307.15	307.15	307.15
7	Reserves (excluding revaluation reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	39,898.57
8	Earnings Per Share (of ₹10 each) (for Continuing & discontinued operations)			
	Basic	33.98	20.77	156.80
	Diluted	33.98	20.77	156.80

NOTES:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and Company website: www.supersales.co.in.

Coimbatore
27.07.2022

On behalf of the Board
(Sd/-) SANJAY JAYAVARTHANAVELU
Chairman



UFO Moviez India Limited

CIN: L22120MH2004PLC285453

Regd. and Corporate Office: Valuable Techno Park, Plot #53/1, Road #7,

MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400093

Tel: +91 22 40305060 Fax: +91 22 40305110

Email: investors@ufomoviez.com / Website: www.ufomoviez.com

जनसत्ता

क्लासीफाइड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुकदमेवाली श्री हीरा लाल पुत्र श्री मंगी राम और उनकी पत्नी श्रीमती सुकुलता निवासी मकान नं. 16, खसरा नं. 35/10, अमरुद बाग, लखनऊ, पिन-2, नोएडा, नगरपालिका रोड, दिल्ली-110043 ने अपने पुत्र प्रमोद और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को उनके मालिकता के पुर्ववर्तीकरण के कारण अपनी सम्पत्ति सह-अपना सम्पत्ति से वेदछान कर दिया है तथा सम्पत्ति सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं, भविष्य में इनके किसी भी प्रकार के कार्य के लिए मेरे मुकदमेवाली और उनके परिवार वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता./-
अवध नारायण
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

My clients Gaganand S/o Late Gisha Ram and his wife Heera Devi both R/O B-118, Khanpur, J.J. Colony, Dr. Ambedkar Nagar, Pushpa Bhawan S.O. South Delhi, Delhi-110062 have broken their relationship from their son Ramchandra @ Raju, his wife Mrs. Lali and their children namely (1) Nikhil @ Naveen (2) Nitin @ Pawan, (3) Phylus, (4) Jagdish and (5) Ms. Nishu, due to their misbehavior, disobedience & misconduct, and my clients debar/disown them from their all movable and immovable properties. If anybody will keep relations with them, he would be liable for the same.

Yogesh Kumar (Advocate)
Ch.No.625 Saket Court New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

IT IS INFORMED TO GENERAL PUBLIC AT LARGE THAT MY CLIENT SH. KALASH CHAND JAIN S/O. L.T. SH. KANOR CHAND JAIN, AGED ABOUT 64 YEARS AND HIS WIFE SMT. NARULA JAIN AGED ABOUT 61, BOTH R/O: H. NO. QP-66, 1ST FLOOR, PITAMPURA, DELHI, FROM THEIR MOVEABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES/ASSETS AND MY CLIENTS HAVE SEVERED THEIR RELATIONS WITH THEM DUE TO THEIR DISOBEDIENT AND HOSTILE ATTITUDE. MY CLIENTS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACTS OR DEALS WITH ANYONE, IF ANY ONE DEALS WITH THEM HE/SHE SHALL DO SO AT THEIR OWN RISK AND CONSEQUENCES. MY CLIENTS ARE NOW NOT RESIDING WITH THEM. SON NAMELY SANDEEP JAIN AND HIS WIFE SMT. NEHA JAIN.

Sd/-
DR. SHARMA & NEERAJ GUPTA
En. No. D-11662007 (ADVOCATE)
Ch. No. : 1419, 14th Floor, Lawyers Chambers
Rohini Court Complex, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

Know all that my client Amarjeet Singh S/o Late Sh. Harbans Singh R/O House No. 35 Priyadarshini Vihar Part II Delhi-110009 has disowned / debarred / discard her son and daughter in law i.e. Gagandeep Singh S/o Sh. Amarjeet Singh and Mrs. Gurnish Kaur W/o Gagandeep Singh respectively, who are presently residing at 2nd Floor of 35, Priyadarshini Vihar Delhi from all of her movables and immovable assets and has also ceased all relations in every respect with them. It is further declared that any person who so ever deals with them shall do so entirely at his/her own risks and costs and responsibility and he shall not be responsible for dealing with them, if any person do so.

(SATVINDER SINGH) ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

Know all that my client Smt. Parminder Kaur W/o Amarjeet Singh R/O House No. 35 Priyadarshini Vihar Part II Delhi-110009 has disowned / debarred / discard her son and daughter in law i.e. Gagandeep Singh S/o Sh. Amarjeet Singh and Mrs. Gurnish Kaur W/o Gagandeep Singh respectively, who are presently residing at 2nd Floors of 35,

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Indra Bahl W/o Late J. L. Bahl Residing at N-2, First Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 declare that name of mine has been wrongly written Indra Kumari in my husband's service book. The actual name of mine is Indra Bahl respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

(Indra Bahl)

PUB

में संजीव कु
शर्मा निवा
नगर, उत्तम
मेरे नाबालि

तिथि-10/0

में उसकी म

पपलेश (रि

से हमारे बे

यहाँ नाम त

नाम 'रीना

आधार कार

हो सकती है

रीना देवी प

बेटे के स्वरु

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

रुपए चमका, चांदी 482 रुपए मजबूत

जुलाई (भाषा)।

बाजार

ओं की

पल्लेख (रि

से हमारे बे

यहाँ नाम त

नाम 'रीना

आधार कार

हो सकती है

रीना देवी प

बेटे के स्वरु

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना



नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना

नाम 'रीना